

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 29—दिसम्बर 5, 2014 (अग्रहायण 8, 1936)

No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 29—DECEMBER 5, 2014 (AGRAHAYANA 8, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली - 110011, दिनांक 26 अगस्त 2014

सं. ए.22013/2/2014-पीएमई—सशस्त्र सेना मुख्यालय के निजी सचिव श्री वी. शंकर, जो वर्तमान में प्रधान मंत्री कार्यालय में लोन आधार पर कार्यरत हैं, को दिनांक 26 अगस्त, 2014 (अपराहन) से इस कार्यालय से उनके कार्यभार से मुक्त किया जाता है।

पी.के. बाली, अवर सचिव

सं. ए.22017/2/2014-पीएमई—राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय की केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव और वर्तमान में प्रधान मंत्री की नियमित स्थापना में कार्यरत श्री आर. रामचन्द्रन को दिनांक 27 अगस्त, 2014 के पूर्वाहन से प्रधान मंत्री के निजी स्टाफ में प्रतिनियुक्ति के आधार पर निजी सचिव नियुक्त करते हैं।

2. प्रधान मंत्री के निजी स्टाफ में श्री रामचन्द्रन की नियुक्ति प्रधान मंत्री के कार्यकाल के साथ सह-समाप्य तथा उनके विवेकाधीन होगी।

पी.के. बाली, अवर सचिव

सं. ए. 22017/2/2014-पीएमई—सशस्त्र सेना मुख्यालय के निजी सचिव श्री सी. रविचन्द्रन, जिन्हें प्रधान मंत्री के निजी स्टाफ में सहसमाप्य आधार पर नियुक्त किया गया था, को दिनांक 26 अगस्त, 2014 (अपराहन) से इस कार्यालय से उनके कार्यभार से मुक्त किया जाता है।

पी.के. बाली, अवर सचिव

नई दिल्ली - 110011, दिनांक 12 सितंबर 2014

संख्या ए.22012/2/2014-पीएमई—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अधिकारी श्री कृष्ण लाल कपूर को प्रधान मंत्री कार्यालय में ₹ 6600/- के ग्रेड-पे के साथ पे-बैंड-3 (₹ 15,600-39,100) में दिनांक 30 अप्रैल 2014 (पूर्वाहन) से प्रधान निजी सचिव नियुक्त करते हैं।

आर. मैथिली, अवर सचिव

दिनांक: 30 सितंबर, 2014

सं.ए. 38012/1/2014-पीएमई—अधिवर्षिता की आयु पूरी होने के फलस्वरूप इस कार्यालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निदेशक श्री मेहर चन्द झाम्ब दिनांक 30 सितंबर, 2014 (अपराहन) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आर. मैथिली, अवर सचिव

सं.ए. 38012/4/2014-पीएमई—अधिवर्षिता की आयु पूरी होने के फलस्वरूप इस कार्यालय में केन्द्रीय आशुलिपिक सचिवालय सेवा के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव श्री टी. रविन्द्रन नायर दिनांक 30 सितम्बर, 2014 (अपराहन) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आर. मैथिली, अवर सचिव

सं.ए. 38013/3/2014-पीएमई—अधिवर्षिता की आयु पूरी होने के फलस्वरूप इस कार्यालय में केन्द्रीय आशुलिपिक सचिवालय सेवा के निजी सचिव श्री त्रिभुवन सिंह दिनांक 30 सितम्बर, 2014 (अपराहन) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आर. मैथिली, अवर सचिव

दिनांक 16 अक्टूबर 2014

सं. ए.22017/2/2014-पीएमई—राष्ट्रपति, श्री एम. सी. झाम्ब, सेवा निवृत्त व्यक्ति को प्रधान मंत्री के निजी स्टाफ में ₹ 8,700/- के ग्रेड-पे के साथ पे-बैंड-4 [₹ 37,400-67,000] में दिनांक 1 अक्टूबर, 2014 (पूर्वाहन) से निदेशक नियुक्त करते हैं।

2. प्रधान मंत्री के निजी स्टाफ में श्री झाम्ब की नियुक्ति 1 अक्टूबर, 2014 से 6 महीने के लिए और उनके विवेकाधीन, अनुमोदित मानक निबंधन एवं शर्तों के अनुसार होगी।

आर. मैथिली, अवर सचिव

सं. ए.22012/1/2014-पीएमई—राष्ट्रपति, श्री भास्कर खुलवे, आईएएस (पश्चिम बंगाल : 83) को दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 (पूर्वाहन) से प्रधान मंत्री के अपर सचिव नियुक्त करते हैं।

आर. मैथिली, अवर सचिव

दिनांक 24 अक्टूबर 2014

सं. ए.22012/1/2014-पीएमई—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा को प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 (पूर्वाह्न) से 'तदर्थ आधार' पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव नियुक्त करते हैं।

आर. मैथिली, अवर सचिव

दिनांक 28 अक्टूबर 2014

सं. ए. 22012/1/2014-पीएमई—राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री कार्यालय में निदेशक श्री मनु महावर (आईएफएस : 96) की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल को 25.10.2014 से आगे 30.11.2014 तक के लिए बढ़ाते हैं।

आर. मैथिली, अवर सचिव

दिनांक 31 अक्टूबर 2014

सं. ए.38012/3/2014-पीएमई—अधिवर्षिता की आयु पूरी होने के फलस्वरूप इस कार्यालय में प्रधान निजी सचिव श्री नरेन्द्र सिंह कश्यप दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आर. मैथिली, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवम्बर 2014

सं.आरएस/20/1/2014/116-कार्मिक—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री भगवान सिंह गुलेरिया, सहायक निदेशक, 31 अगस्त, 2014 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

सं. ए-12024/4/2005-प्रशासन—राष्ट्रपति, डॉ० तारा कर्था, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय में संविदा आधार पर संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, को उनके निदेशक पद पर चुने जाने के उपरान्त, उन्हें संशोधन पूर्व वेतनमान-14,300-400-18,300/- रु. में नये संविदा आधार पर दिनांक 29 सितम्बर, 2006 के पूर्वाह्न से पाँच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों के जारी होने तक, जो भी पहले हो, निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, डॉ० तारा कर्था को वेतन बैंड-4 के वेतनमान-37,400-67,000/-रु. + ग्रेड वेतन-8,700/-रु. में आमेलन आधार पर, उनके द्वारा वर्तमान में धारित पद के विरुद्ध, दिनांक 12 अप्रैल, 2012 से निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. कामेश्वर, उप-सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 अक्टूबर 2014

सं. आई-18011/10/2014-आई.पी.एस.-4—भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राष्ट्रपति भारतीय पुलिस सेवा के बिहार संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के आगे उल्लिखित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं।

क्र.सं.	आई.पी.एस. परिवीक्षाधिनों का नाम	तिथि
1.	श्रीमती हरप्रीत कौर, आई.पी.एस. (बिहार: 2009)	31.08.2011
2.	सौरभ कुमार शाह, आई.पी.एस. (बिहार: 2009)	31.08.2011
3.	पुष्कर आनन्द, आई.पी.एस. (बिहार: 2009)	31.08.2011

अरविन्द गौड़, अवर सचिव

दिनांक 14 नवम्बर 2014

सं. आई-18011/04/2014-आई.पी.एस.-4—भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राष्ट्रपति भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के आगे उल्लिखित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं।

क्र.सं.	आई.पी.एस. परिवीक्षाधिन के नाम	तिथि
1.	श्री अमित सिंह, आई.पी.एस. (मध्य प्रदेश: 2009)	31.10.2011
2.	श्री नवनीत भसीन, आई.पी.एस. (मध्य प्रदेश: 2009)	31.08.2011
3.	श्री रोडाल्फ अल्वारेस आर., आई.पी.एस. (मध्य प्रदेश: 2009)	30.09.2012
4.	श्री तरुण नायक, आई.पी.एस. (मध्य प्रदेश: 2009)	20.12.2011

अरविन्द गौड़, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 नवम्बर 2014

सं. 23012/05/2013-अ.भा.से.-III—वर्ष 1987 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किए गए एवं कर्नाटक संवर्ग में पद धारण करने वाले श्री बसवराजू को अपना नाम श्री बसवराजू से (Basavaraju) परिवर्तित कर डॉ. बी. बसवराजू (Basavaraaju) करने की अनुमति दी गई है। तदनुसार सभी सरकारी प्रयोजनों हेतु उन्हें डॉ. बी. बसवराजू (Basavaraaju) के रूप में जाना जाएगा।

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 नवम्बर 2014

सं.-13017/09/2011-अ.भा.से.(I)—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और महाराष्ट्र और उत्तराखंड सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार एतद्वारा डॉ. निधि पाण्डेय, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एम.एच.:01) की महाराष्ट्र संवर्ग से उत्तराखंड संवर्ग में अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति में दिनांक 17.06.2014 के बाद दो वर्षों की अवधि हेतु विस्तार का अनुमोदन प्रदान करती है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 12 नवम्बर 2014

सं. ए-32015/8/2006-संवर्ग (प्रशा. IV):- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.09.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/2/2013 -सीएस I (एस) के अनुसार, वरिष्ठता के आधार पर वर्ष 2009, 2010 एवं 2011 की चयन सूचियों में उन्हें शामिल किए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को चयन सूची वर्षों के लिए, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अनुभाग अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) के रूप में, 4800/- रूपए के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-2 में तथा उनके नामों के सामने उल्लिखित तिथियों से नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती)	चयन सूची वर्ष	नियुक्ति की तारीख
1	2	3	4
1.	तन्मय राँय	2009	
2.	पी. के. चौधरी	2009	

1	2	3	4
3.	पॉल चिरामल	2010	विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुमोदन की तिथि अर्थात् 22.08.2014
4.	ए. के. रंजन	2010	
5.	सी. रवीन्द्रनाथ रेड्डी	2011	
6.	पवन कुमार	2011	
7.	शांति लता टोपो	2011	
8.	मुकुत सैकिया	2011	
9.	एन. तिरकी	2011	
10.	निलंजन कर्माकर	2011 (विस्तारित)	

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 नवम्बर 2014

सं. ए-19011/01/2012 प्र.सु. (प्रशा.1)—राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 3 नवम्बर, 2014 के पत्र सं. 36/38/2014-ईओ(एसएम-I) के अनुसरण में श्री अरुण झा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार : 81) द्वारा धारित पद को अस्थायी रूप से उन्नयन करते हुए श्री अरुण झा को दिनांक 16.10.2014 (अपराह्न) से विशेष सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के रूप में नियुक्त करते हैं।

आलोक जगभरिया, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 नवम्बर 2014

सं. 2/1/2011-एडीबी. I—श्री राजीव महर्षि, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को एशियाई विकास बैंक, मनीला, फिलिपीन्स, के गवर्नर बोर्ड में, श्री अरविंद मायाराम के स्थान पर 30 अक्टूबर, 2014 अपराह्न से वैकल्पिक गवर्नर नियुक्त किया गया है।

संजय कुमार सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 नवम्बर 2014

सं. 22/19/2012-एएफडीबी—श्री राजीव महर्षि, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को अफ्रीकी विकास बैंक तथा अफ्रीकी विकास निधि के गवर्नर बोर्ड में, श्री अरविंद मायाराम के स्थान पर 30 अक्टूबर, 2014 से भारत का वैकल्पिक गवर्नर नियुक्त किया गया है।

जितेन्द्र मलिक, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 7 नवम्बर 2014

सं. ए-19011/5/2014-स्थापना—राष्ट्रपति, डॉ. हसमुख अडिया, आईएएस (गुजरात:81) को 07 नवम्बर, 2014 के अपराह्न से श्री गुरदयाल सिंह संधू, आईएएस (राजस्थान:80) के स्थान पर वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

मनीष कुमार, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

सं. ए-12022/8/2014-स्था.—राष्ट्रपति, श्री समीर कुमार बिस्वास, (आईएएस) (एमएच : 90) को वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय में विकास आयुक्त के पद पर पे बैंड-4 में 37,400—67,000/— रु. + ग्रेड वेतन 10,000/— रु. के वेतनमान में दिनांक 09 अक्टूबर 2014 (पूर्वाह्न) से 5 वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

मतियस बिहां, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 अक्टूबर 2014

सं. 11(09)/2014-स्था.—डॉ. एस. एस. टाक, संयुक्त औद्योगिक सलाहकार, इस्पात मंत्रालय दिनांक 30.09.2014 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त हो गए हैं।

हरीश कुमार कधवा, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 10 नवम्बर 2014

सं. ए-19014/01/2014-स्था.—दिनांक 19 अगस्त, 2014 में आंशिक संशोधन करते हुए अधिसूचना के पैरा (I) में उल्लिखित ग्रेड वेतन 6600/— रु. सहित वेतन बैंड (रु. 15600—39400/—) के स्थान पर ग्रेड वेतन 6600/— सहित वेतन बैंड (रु. 15600—39100/—) पढ़ा जाए। उपर्युक्त अधिसूचना की अन्य नियम एवं शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं है।

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्टूबर 2014

सं. 12-6/2012- प्रशा. III—संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर भारत के राष्ट्रपति ने Jh luhy dekj HkkMdj को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के अधीन केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म में पे• बैंड -3 (रूपए 15,600 -39,100) + ग्रेड पे• रूपए 5400/- के वेतनमान पर दिनांक 29.09.2014 (पूर्वाह्न) से पशुचिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया है।

धीरज भास्कर, अवर सचिव

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 नवम्बर 2014

सं० ए-19011/107/2014-स्था.—राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के का० ज्ञा० सं० 4/22/2014-ईओ (एसएम. I) के अनुसरण में, श्री अरविन्द मायाराम, भा० प्र० से० (राजस्थान : 78) को दिनांक 30 अक्टूबर, 2014 (अपराह्न) से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

मैत्रेयी राय, उप सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 जून 2014

सं. 3-1/2014-प्रशासन—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.05.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/8/2013-सीएस-II(ए) के तहत वरिष्ठता कोटा के लिए जोनिंग स्कीम के अंतर्गत चयन सूची वर्ष 2012 के लिए सीएसएसएस के निजी सचिव में समावेशन के फलस्वरूप, राष्ट्रपति,

सीएसएसएस के निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों को उनके नामों के समक्ष उल्लिखित तारीखों से नियमित आधार पर डाक विभाग में सीएसएसएस के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

क्र.सं.	सीएसएस सं.	नाम सर्व/श्री/सुश्री	नियमित आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्ति की तारीख
1.	1191	बी. पशुपति	26-05-2014 (पूर्वाह्न)
2.	1794	रजनी बाला वर्मा	02-06-2014 (पूर्वाह्न)

विजयलक्ष्मी भारद्वाज, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

पर्यटन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 अक्टूबर 2014

सं. ए-35021/3/2008-प्रशा.1—राष्ट्रपति, डॉ. ललित के. पवार, भा.प्र.से. (राज. : 79) को 30 अक्टूबर, 2014 के पूर्वाह्न से पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. एल. गुप्ता, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्टूबर 2014

सं. ई(ओ)III-2014/आरएन/19—श्री संजय कुमार सिंह, एसएजी/आईआरएसएसई (जन्म तिथि: 02.02.1966 एवं डीआईटीएस: 22.01.1990) का एमआरवीसी में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप उन्होंने 07.05.2014 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

पी.सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 31 अक्टूबर 2014

सं. ई(ओ)III-2014/आरएन/18—श्री ए. के. मनोचा, भारतीय रेल यातायात सेवा के उच्च प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी (जन्म तिथि: 30/07/57, डीआईटीएस: 27/12/81) का आईआरसीटीसी में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप उन्होंने 19/09/2014 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

पी.सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 2014

सं. ए-23021/1/2013-प्रशा.11—राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25/09/2013 के का.जा.सं. 6/2/2013-सीएस-1(एस)-1 और 6/2/2013-सीएस-1 (एस)-II, 6/2/2013-सीएस-1 (एस)-III, के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के वरिष्ठता कोटा के अन्तर्गत वर्ष 2009 और 2011 के लिए अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड की वरीयता सूची में इस मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित सहायकों, जो इस समय तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, के नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में निम्नानुसार नियुक्त करते हैं:-

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री/ सुश्री)	वर्तमान कार्यालय	जिस वर्ष की वरीयता सूची में शामिल किया गया
1.	बबीता सक्सेना	भारत में समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय	2009
2.	शीशपाल सिंह	डीएवीपी	2011

2. ये अधिकारी अगले आदेशों तक अपने अपने सामने उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान पर कार्य करते रहेंगे।
3. इसके अतिरिक्त, संबंधित वर्ष की वरीयता सूची वर्ष में उनके नाम शामिल होना, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त कार्यालय जापनों में निर्धारित शर्तों के अधीन होगा।

नीरज कुमार, अवर सचिव

दिनांक 16 सितम्बर 2014

सं. ए-23020/2/2012-प्रशा.॥—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04/07/2014 के का.जा.सं. 5/6/2013-सीएस-1(यू), जिसके द्वारा इस मंत्रालय के वर्तमान में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित अनुभाग अधिकारियों के नामों को ग्रेड-I अधिकारी (अवर सचिव) की वर्ष 2012 की वरीयता सूची में शामिल किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन संसूचित किया गया है, के अनुसरण में उन्हें डीओपीटी के उपर्युक्त का.जा. को जारी किए जाने की तारीख अर्थात् 04.07.2014 से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I अधिकारी (अवर सचिव) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री/श्री)	सीएसएल सं.	वर्तमान/पिछला कार्यालय
1.	प्रसून कुमार झा	7229	मुख्य सचिवालय
2.	किशोर श्रीवास्तव	7271	मुख्य सचिवालय
3.	संजय धर	7296	मुख्य सचिवालय
4.	पी. नागराजन	8013	मुख्य सचिवालय

नीरज कुमार, अवर सचिव

दिनांक 17 सितम्बर 2014

सं. ए-22012/6/2012-प्रशा.॥—राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31/07/2014 के आदेश सं. 4/2/2014-सीएस-1(घ) के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित ग्रेड-I अधिकारियों (अवर सचिव) को तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में पदोन्नत किए जाने और तत्पश्चात् इस मंत्रालय में उनका नामांकन किए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें इस मंत्रालय में उनके अपने नाम के सामने उल्लिखित उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दिनांक 30.06.2015 तक या अगले आदेशों तक, जो पहले हो, ग्रेड पे 7600/- रु. के साथ पी.बी.-3, 15600- 39100/- रु. में इस मंत्रालय में तदर्थ आधार पर चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं। साथ ही, उन्हें इस मंत्रालय में उप सचिव के पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से इस मंत्रालय के मुख्य सचिवालय के संख्या-बल में शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें इस मंत्रालय में तत्काल प्रभाव से प्रत्येक के सामने उल्लिखित कार्यभार सौंपा जाता है:-

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री/श्री)	सीएसएल सं.	पिछला मंत्रालय/विभाग	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	सौंपा गया कार्यभार
1.	दीपक इसरानी	5351	नागर विमानन	04/08/2014 (पूर्वाहन)	उप सचिव (आईआईएस एवं सतर्कता), मुख्य सचिवालय
2.	अजय जोशी	5369	विद्युत	14/08/2014 (अपराहन)	उप सचिव (बीए-पी), मुख्य सचिवालय

2. इसके अतिरिक्त, उनकी तदर्थ पदोन्नति उपर्युक्त कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन होंगी।

नीरज कुमार, अवर सचिव

दिनांक 09 अक्टूबर 2014

सं. ए-23028/1/2014-प्रशा.II—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16/09/2014 के का.जा.सं. 4/8/2013 –सीएस-II(क) भाग-I के तहत वर्ष 2012 (विस्तारित) के लिए वरिष्ठता कोटे के अंतर्गत निजी सचिवों की वरीयता सूची में निम्नलिखित आशुलिपिक ग्रेड-ग/निजी सचिव (तदर्थ) का नाम शामिल किए जाने पर उन्हें इस मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के रूप में नामांकित किए जाने के परिणामस्वरूप नीचे दी गई तारीख से वेतन बैंड-II, 9300-34800 + ग्रेड पे 4800 में नियमित आधार पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें अपने कार्यग्रहण की तारीख से अगले आदेश तक नीचे उल्लिखित कार्यालय में तैनात किया जाता है:-

नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	निजी सचिव की वरीयता सूची का वर्ष	संवर्ग जहां कार्य कर रहे हैं	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तैनाती
श्री कमलजीत सिंह	2012 (विस्तारित)	जल संसाधन	01/10/2014 (पूर्वाहन)	मुख्य सचिवालय

नीरज कुमार, अवर सचिव

दिनांक 16 अक्टूबर 2014

सं. ए-23028/1/2014-प्रशा.II—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16/09/2014 के का.जा.सं. 4/8/2013 –सीएस-II(क) भाग-I के तहत वर्ष 2012 (विस्तारित) के लिए वरिष्ठता कोटे के अंतर्गत निजी सचिवों की वरीयता सूची में निम्नलिखित आशुलिपिक ग्रेड-ग/निजी सचिव (तदर्थ) का नाम शामिल किए जाने पर उन्हें इस मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के रूप में नामांकित किए जाने के परिणामस्वरूप नीचे दी गई तारीख से वेतन बैंड-II, 9300-34800 + ग्रेड पे 4800 में नियमित आधार पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें अपने कार्यग्रहण की तारीख से अगले आदेश तक नीचे उल्लिखित कार्यालय में तैनात किया जाता है:-

नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	निजी सचिव की वरीयता सूची का वर्ष	संवर्ग जहां कार्य कर रहे हैं	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तैनाती
श्री वेद प्रकाश सदाना	2012 (विस्तारित)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	09/10/2014 (पूर्वाहन)	दूरदर्शन महानिदेशालय

नीरज कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्टूबर 2014

सं. ए-22020/1/2014-प्रशा.II(भाग-1)—राष्ट्रपति, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग में पूर्व राज्य मंत्री के साथ अपर निजी सचिव के पद पर कार्यरत रहे श्री गणेश श्रीधर रामदासी, उप निदेशक (सूचना), महाराष्ट्र सूचना केन्द्र, नई दिल्ली को दिनांक 10.06.2014 (पूर्वाहन) से 19.06.2014 तक माननीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के अपर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी.के. चावला, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110 011, the 26th August 2014

No.A.22013/2/2014-PME—Shri V. Shankar, Private Secretary of AFHQ, presently working in Prime Minister's Office on loan basis, stands relieved of his duties from this office with effect from the afternoon of 26th August, 2014.

P.K. BALI, Under Secy.

No.A.22017/2/2014-PME—The President is pleased to appoint Shri R. Ramachandran, Private Secretary of CSSS of Ministry of Home Affairs and presently working in the regular establishment of PM, on the personal staff of Prime Minister on deputation basis in the same capacity, with effect from the forenoon of 27th August, 2014.

2. The appointment of Shri Ramachandran on the personal staff of Prime Minister is co-terminus with the tenure of and at the discretion of the Prime Minister.

P.K. BALI, Under Secy.

No.A.22017/2/2014-PME— Shri C. Ravichandran, Private Secretary of AFHQ, who was appointed on the personal staff of Prime Minister on co-terminus basis, stands relieved of his duties with effect from the afternoon of 26th August, 2014.

P.K. BALI, Under Secy.

New Delhi-110 011, the 12th September 2014

No.A.22012/2/2014-PME—The President is pleased to appoint Shri Krishan Lal Kapoor, an officer of Central Secretariat Stenographer Service as Principal Private Secretary in the Prime Minister's Office, in PB-3(₹15,600-39,100) with grade pay of ₹6600/- with effect from the forenoon of 30th April, 2014.

R. MYTHILI, Under Secy.

The 30th September 2014

No.A.38012/1/2014-PME—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Mehar Chand Jhamb, Director (CSS) in this office, is retired from Govt. service with effect from the afternoon of 30th September, 2014.

R. MYTHILI, Under Secy.

No.A.38012/4/2014-PME—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri T. Raveendran Nair, Senior Principal Private Secretary (CSSS) in this office, is retired from Govt. service with effect from the afternoon of 30th September, 2014.

R. MYTHILI, Under Secy.

No.A.38013/3/2014-PME—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Tribhuvan Singh, Private Secretary (CSSS) in this office, is retired from Government service with effect from the afternoon of 30th September, 2014.

R. MYTHILI, Under Secy.

The 16th October 2014

No.A.22017/2/2014-PME— The President is pleased to appoint Shri M.C. Jhamb, a retired person, as Director on the personal staff of Prime Minister in the Pay Band-4 [Rs.37400-67000] with Grade Pay of Rs.8700, with effect from the forenoon of 1.10.2014.

2. The appointment of Shri Jhamb on the personal staff of Prime Minister is for a period of 6 months beyond 1.10.2014 and at the discretion of the Prime Minister, as per the standard terms and conditions.

R. MYTHILI, Under Secy.

No.A.22012/1/2014-PME—The President is pleased to appoint Shri Bhaskar Khulbe, IAS (WB:83) as Additional Secretary to the Prime Minister w.e.f. the forenoon of 16th October, 2014.

R. MYTHILI, Under Secy.

The 24th October 2014

No.A.22012/1/2014-PME—The President is pleased to appoint Shri Pushpendra Kumar Sharma, Section Officer of Central Secretariat Service (CSS), as Under Secretary of the CSS on 'ad-hoc' basis, in the Prime Minister's Office with effect from the forenoon of 21st October, 2014.

R. MYTHILI, Under Secy.

The 28th October 2014

No.A.22012/1/2014-PME—The President is pleased to extend the tenure of Central Deputation of Shri Munu Mahawar (IFS:96), Director in the Prime Minister's Office beyond 25.10.2014 up to 30.11.2014.

R. MYTHILI, Under Secy.

The 31st October 2014

No.A.38012/3/2014-PME—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Narender Singh Kashyap, Principal Private Secretary in this office, is retired from Govt. service with effect from the afternoon of 31st October, 2014.

R. MYTHILI, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 3rd November 2014

No.RS/20/1/2014/116-Perl.—On attaining the age of superannuation, Shri Bhagvan Singh Guleria, Assistant Director, retired from service with effect from the afternoon of 31st October, 2014.

S. RANGARAJAN, Jt. Director

NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi, the 20th October 2014

No.A-12024/4/2005-Ad.—Consequent upon her selection to the post of Director, the President is pleased to appoint Dr. Tara Kartha, working as Joint Director in the National Security Council Secretariat on contract basis, as Director in the pay scale of Rs.14,300-400-18,300 (pre-revised) on fresh contract for a period of five years or until further orders whichever is earlier, with effect from the forenoon of 29.9.2006.

2. The President is also pleased to appoint Dr. Tara Kartha as Director on absorption basis in the National Security Council Secretariat in the Pay Band-4 of Rs.37,400 - 67000 + Grade Pay of Rs.8,700/- with effect from 12.04.2012 against the post held by her.

S. KAMESHWAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 15th October 2014

No.I-18011/10/2014-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service, the following members of the Indian Police Service borne on the cadre of Bihar with effect from dates mentioned against their names.

Sl No.	Name of IPS Probationers	Date of Confirmation
1.	Smt. Harpreet Kaur, IPS (BH:2009)	31.08.2011
2.	Sourabh Kumar Shah, IPS (BH:2009)	31.08.2011
3.	Pushkar Anand, IPS (BH:2009)	31.08.2011

ARVIND GAUR, Under Secy.

The 14th November 2014

No. I-18011/04/2014-IPS-IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service, the following members of the Indian Police Service borne on the cadre of Madhya Pradesh with effect from dates mentioned against their names:-

Sl No.	Name of the IPS Probationers	Date of Confirmation
1	2	3
1.	Shri Amit Singh, IPS (MP:2009)	31.10.2011
2.	Shri Navneet Bhasin, IPS (MP:2009)	31.08.2011
3.	Shri Rudolf Alvares R.J., IPS (MP:2009)	30.09.2012
4.	Shri Tarun Nayak, IPS (MP:2009)	21.12.2011

ARVIND GAUR, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 7th November 2014

No. 23012/05 /2013-AIS-III—Shri Basavaraju appointed to the Indian Administrative Service on the basis of the Civil Services Examination held in 1988 and borne on the cadre of Karnataka has been permitted to change his name from Shri Basavaraju to Dr. B. Basavaraaju. He will accordingly be recognised as Dr. B. Basavaraaju for all official purposes.

NAVNEET MISHRA, Under Secy.

New Delhi, the 10th November 2014

No.13017/09/2011-AIS(I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Maharashtra and Uttarakhand the Central Govt. hereby accords approval for extension of inter cadre deputation of Dr Nidhi Pandey, IAS (MH:01) from Maharashtra cadre to Uttarakhand cadre for a period of two years beyond 17.06.2014.

S.S. SHUKLA, Under Secretary

New Delhi, the 12th November 2014

No. A-32015/8/2006-Cadre(Ad.IV)—Consequent upon their inclusion in the Select Lists for the years 2009, 2010 & 2011 on the basis of Seniority, in terms of Department of Personnel and Training's O.M No.6/2/2013-CS.I(S) dated 25.9.2013, the President is pleased to appoint the following officials as Section Officers (Group 'B' Gazetted) of Central Secretariat Service (CSS) in the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions in the Pay Band 2 with Grade Pay of Rs.4800/- for the Select List Years and with effect from the dates mentioned against their names:-

Sl. No.	Name of the Officer (Shri/Smt.)	Select List Year	Date of appointment
1.	Tanmoy Roy	2009	Date of approval by the Departmental Promotion Committee i.e. 22.08.2014
2.	P.K. Choudhary	2009	
3.	Paul Chiramal	2010	
4.	A.K. Ranjan	2010	
5.	C. Ravindranath Reddy	2011	
6.	Pawan Kumar	2011	
7.	Shanti Lata Toppo	2011	
8.	Mukut Saikia	2011	
9.	N. Tirkey	2011	
10.	Nilanjan Karmakar	2011(Extended)	

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS & PUBLIC GRIEVANCES

New Delhi-110001, the 5th November 2014

No.A-19011/01/2012-AR(Ad.I)—In pursuance of Appointments Committee of the Cabinet, Department of Personnel & Training's communication No.36/38/2014-EO(SM.I) dated 3rd November, 2014, the President is pleased to appoint Shri Arun Jha, IAS(BH:81) as Special Secretary, Department of Administrative Reforms & Public Grievances, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions with effect from 16.10.2014(AN) by temporarily upgrading the post held by the Officer.

ALOK JAGBHARIA, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 14th November 2014

No.2/1/2011-ADB.I—Shri Rajiv Mehrishi, Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India has been appointed as India's Alternate Governor on the Board of Governors of the Asian Development Bank, Manila, Philippines with effect from the afternoon of 30th October, 2014 vice Shri Arvind Mayaram.

SANJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 17th November 2014

No.22/19/2012-AfDB—Shri. Rajiv Mehrishi, Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India has been appointed as India's Alternate Governor on the Board of Governors of the African Development Bank and African Development Fund with effect from 30th October 2014 vice Shri. Arvind Mayaram.

JITENDER MALIK, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 7th November 2014

No. A-19011/5/2014-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. Hasmukh Adhia, IAS(GJ:81) as Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance with effect from the afternoon of the 7th November, 2014 in place of Shri Gurdial Singh Sandhu, Secretary, IAS(RJ:80).

MANISH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 20th October 2014

No.A-12022/8/2014-Estt—The President is pleased to appoint Shri Samir Kumar Biswas, IAS (MH:90) as Development Commissioner in the Office of the Development Commissioner(Handicrafts) under the Ministry of Textiles in the Pay Band-4 of Rs. 37,400-67,000 plus Grade Pay of Rs.10,000 with effect from the forenoon of 9th October, 2014 for a period of 5 years or until further orders, whichever is earlier.

MATIAS BIHAN, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi-110001, the 16th October 2014

No. 11(09)/2014-Estt.—The president is pleased to retire Dr. S.S. Tak, Joint Industrial Advisor, Ministry of Steel on 30/09/2014, on attaining the age of superannuation.

HARISH KUMAR WADHWA, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi-110 016, the 10th November 2014

In partial modification of Notification No.A-19014/01/2014 dated 19th August, 2014, the Pay Band mentioned in Para (i) of the notification may be read as "Pay Band-III (Rs.15600 – 39100 with Grade Pay of Rs.6600/-" instead of "Rs.15600 – 39400/-) with Grade Pay of Rs.6600/-. Other terms and conditions of the said notification remain unchanged.

KULDIP KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING & FISHERIES)

New Delhi, the 21st October 2014

No.12-6/2012-Admn.III. —On the recommendations of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sunil Kumar Bhandekar as Veterinary Officer in the scale of pay of Pay Band-3 Rs.15,600-39,100/- with Grade Pay of Rs. 5400/- in Central Cattle Breeding Farms under the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries w.e.f. 29th September, 2014(Forenoon).

DHEERAJ BHASKAR, Under Secy.

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110 003, the 5th November 2014

No. A-19011/107/2014-Estt.— In pursuance of the Appointments Committee of the Cabinet, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training's O.M. No. 4/22/2014-EO (SM.I) dated 29th October, 2014, the President is pleased to appoint Shri Arvind Mayaram, IAS (RJ:78) as Secretary, Ministry of Minority Affairs w.e.f. 30th October, 2014 (A/N).

MAITREYEE ROY, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi – 110001, the 24th June 2014

No. 3–1/2014 – Admn.— Consequent upon inclusion in the Private Secretary of CSSS for the Select List Year 2012 under the zoning scheme for Seniority Quota vide Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/8/2013-CS-II(A) dated 26.05.2014, the President is pleased to appoint the following PA of CSSS as Private Secretary of CSSS in Department of Posts on regular basis with effect from the dates mentioned against each :-

Sl. No.	CSL No.	Name S/Shri/Ms.	Date of appointment as PS on regular basis
1.	1191	B.Pasupathy	26.05.2014 (F/N)
2.	1794	Rajani Bala Verma	02.06.2014(F/N)

VIJAYALAKSHMI BHARADWAJ, Asstt. Director General (Admn.)

MINISTRY OF TOURISM

New Delhi- 110001, the 30th October 2014

No.A-35021/3/2008-Admn.I—The President is pleased to appoint Dr. Lalit K. Panwar, IAS(RJ:79) as Secretary in the Ministry of Tourism, Government of India with effect from the forenoon of 30th October, 2014.

R. L. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 28th October 2014

No. E(O)III-2014/RN/19—Consequent upon his permanent absorption in MRVC, Shri Sanjay Kumar Singh, SAG/IRSSE, (DOB-02.02.1966 & DITS-22.01.1990) has resigned from Railway service with effect from 07.05.2014.

P. C. GAJBHIYE, Secy.
Railway Board

The 31st October 2014

No.E(O)III-2014/RN/18—Consequent upon his permanent absorption in IRCTC, Shri A.K. Manocha, Higher Administrative Grade officer of the Indian Railway Traffic Services (DOB: 30/07/57, DITS: 27/12/81) has resigned from Railway service with effect from 19/09/2014.

P. C. GAJBHIYE, Secy.
Railway Board

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 12th September 2014

No. A-23021/1/2013-Admn. II—Consequent upon inclusion of their names in the Select List of Section Officers' Grade for the years 2009 and 2011 against Seniority Quota of CSS Cadre of Ministry of Information & Broadcasting vide DoPT's O.Ms. No. 6/2/2013-CS-I (S)-I and 6/2/2013-CS-I (S)-III dated 25/09/2013, the President is pleased to appoint the following regular Assistants of CSS cadre of this Ministry, who are presently working as Section Officer on ad-hoc basis, as Section Officer on regular basis in Ministry of Information & Broadcasting as per details mentioned below :—

Sl. No.	Name (S/Sh/Ms)	Present Office	Included in the Select List Year
1.	Babita Saxena	O/o RNI	2009
2.	Shispal Singh	DAVP	2011

2. They shall continue to work in their present place of posting as mentioned above against each until further orders.

3. Further, their inclusion in respective select list year is subject to the conditions as laid down in DoPT's O.Ms. referred to above.

NEERAJ KUMAR, Under Secy.

The 16th September 2014

No. A-23020/2/2012-Admn. II—In pursuance of DoPT's O.M. No. 5/6/2013-CS.I(U) dated 04.07.2014 conveying therein approval of the Competent Authority for inclusion in the Select List Year 2012 of Grade-I officer (Under Secretary) of Central Secretariat Service, the following regular Section Officers of Central Secretariat Service cadre of this Ministry, presently working as Under Secretary on ad-hoc basis, are hereby appointed on regular basis as Grade-I officer (Under Secretary) of Central Secretariat Service w.e.f. 04.07.2014 i.e. the date of issuance of DoPT's O.M. ibid:—

Sl.No.	Name (S/Sh)	CSL No.	Present/last Office
1.	Prasoon Kumar Jha	7229	Main Sectt
2.	Kishore Srivastava	7271	Main Sectt
3.	Sanjay Dhar	7296	Main Sectt
4.	P. Nagarajan	8013	Main Sectt

NEERAJ KUMAR, Under Secy.

The 17th September 2014

No. A-22012/6/2012-Admn. II—Consequent upon their promotion to the Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service on ad-hoc basis vide DoPT's Order No. 4/2/2014-CS-I (D) dated 31/07/2014 and subsequent nomination to this Ministry, the President is pleased to appoint the under mentioned Grade-I Officer (Under Secretary) of Central Secretariat Service cadre as Selection Grade (Deputy Secretary) on ad-hoc basis in this Ministry in PB-3, Rs. 15600-39100/- with Grade Pay of Rs. 7600/- with effect from the date of their joining in this Ministry as mentioned against each for a period upto 30/06/2015 or until further orders whichever is earlier. Simultaneously, they are taken on the rolls of the Main Sectt. of this Ministry as Deputy Secretary with effect from the date of their joining in this Ministry. Further, they are given assignment in this Ministry as mentioned against each with immediate effect:-

Sl. No.	Name (S/Sh)	CSL No.	Previous Ministry/Deptt.	Date of joining in M/o I&B	Assignment given as
1.	Deepak Israni	5351	Civil Aviation	04/08/2014 (F/N)	DS (IIS & Vig.), Main Sectt.
2.	Ajay Joshi	5369	Power	14/08/2014 (A/N)	DS (BA-P), Main Sectt.

2. Further, their ad-hoc promotion is subject to the conditions as laid down in DoPT's Order referred to above.

NEERAJ KUMAR, Under Secy.

The 9th October 2014

No. A-23028/1/2014-Admn.II— Consequent upon his nomination to this Ministry for appointment as Private Secretary (PS) of Central Secretariat Stenographers' Service on his inclusion in the select list of Private Secretaries under Seniority Quota for the year 2012(extended), vide DoP&T's O.M. No. 4/8/2013-CS-II(A)(Part-I), Dt. 16/09/14, the under-mentioned Stenographer Grade 'C'/PS(ad-hoc) is appointed to the post of Private Secretary in the Ministry of Information & Broadcasting on regular basis in PB-2, Rs. 9300-34800 + Grade Pay of Rs. 4800 with effect from the date mentioned below. Further, he is posted to the office as mentioned below w.e.f. his joining date, until further orders: -

Name (Sh./Smt./Ms.)	Select List Year of PS	Cadre where working	Date of Joining in M/o I&B	Posting in M/o I&B
Shri Kamaljit Singh	2012 (Extd.)	Water Resources	01.10.14 (FN)	MS

NEERAJ KUMAR, Under Secy.

The 16th October 2014

No. A-23028/1/2014-Admn.II : Consequent upon his nomination to this Ministry for appointment as Private Secretary (PS) of Central Secretariat Stenographers' Service on his inclusion in the select list of Private Secretaries under Seniority Quota for the year 2012(extended), vide DoP&T's O.M. No. 4/8/2013-CS-II(A)(Part-I), Dt. 16/09/14, the under-mentioned Stenographer Grade 'C'/PS(ad-hoc) is appointed to the post of Private Secretary in the Ministry of Information & Broadcasting on regular basis in PB-2, Rs. 9300-34800 + Grade Pay of Rs. 4800 with effect from the date mentioned below. Further, he is posted to the office as mentioned below w.e.f. his joining date, until further orders:-

Name (Sh./Smt./Ms.)	Select List Year of PS	Cadre where working	Date of Joining in M/o I&B	Posting in M/o I&B
ShriVed Prakash Sadana	2012 (Extd.)	Health & Family Welfare	09.10.14 (FN)	DG:DDn

NEERAJ KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 30th October 2014

No. A-22020/1/2014-Admn. II (Part-1): The president is pleased to appoint Shri Ganesh ShridharRamdasi, Deputy Director (Information), Maharashtra Information Centre, New Delhi and working as Additional Private Secretary with former Minister of State in the Department of Agriculture Research & Education, as Additional Private Secretary to Hon'ble Minister of State (Independent Charge) for Information & Broadcasting [Shri Prakash Javadekar] w.e.f. 10/06/2014 (F/N) and till 19/06/2014.

D. K. CHAWLA, Under Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in